

मालन नदी का पुनरुद्धार

चर्चा में क्यों?

3 मई, 2022 को बजिनौर के डीएम उमेश मशि़रा द्वारा मालन नदी के पुनरुद्धार हेतु अभियान का शुभारंभ किया गया ।

प्रमुख बदि

- इस अवसर पर डीएम मशि़रा ने बताया कि मालन के किनारे समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी, जिसका साक्ष्य यहाँ से मली मूरतियाँ, शविलगि एवं वभिनिन वस्तुओं के अवशेष हैं, जिन्हें मयूरेश्वर नाथ महादेव बाबा धाम मंदिर में सहेजकर रखा गया है ।
- इस नदी के किनारे ही कण्व आश्रम के साथ-साथ राजा मोरध्वज का कला भी अवस्थित था ।
- गौरतलब है कि मालन नदी, जिसे प्राचीन काल में मालिनी कहा जाता था, का उद्गम पौड़ी ज़िले की चंडा पहाड़ियों से माना जाता है ।
- उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलने वाली यह नदी मैदान में आकर नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है । बजिनौर में हलदूखाता से प्रवेश करने के बाद यह नदी ज़िले में 53 कमी. की यात्रा करने के बाद गंगा में मलि जाती है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/revival-of-malan-river>

